

ELIGIBILITY FORM

Haryana Schools Tournament-2014-15

Age Group _____ Boys/Girls

Venue _____ From _____ to _____ Game/Event _____

1. Block/District/State:- _____

2. Name of participant _____
(in block letters)

3. Father's Name _____

4. Mother's Name _____

5. Home Address _____

6. Contact Number _____

7. Date of Birth: (i) in Fig. - -
(ii) in words _____

8. Age in completed years as on 31st December 2014:- _____ Year _____ Month _____ Days

9. Name of the Institution:- _____

10. Date of Admission in School:- _____

11. Present Class & Admission No. :- _____

12. Year of passing 5th, 8th, 10th :- _____

13. Percentage of attendance:- _____

14. Two Prominent marks on the body:-

i) _____ (ii) _____

15. Signature of the Student:- _____

16. Sports fund paid so far for the year 2013 - 2014 :-

a). Strength of students from VI -VIII fund/amount paid with proof Rs. _____

b). Strength of students from IX- X fund/amount paid with proof Rs. _____

c). Strength of students (i) XI - XII Arts:- fund/amount paid with proof Rs. _____

(ii) XI - XII Commerce:- fund/amount paid with proof Rs. _____

(iii) XI - XII Science:- fund/amount paid with proof Rs. _____

Total fund/Amount paid Rs. _____

Certificate:- 1. Certified that the above participant is a bonafide student of this institution for the academic year 2014-15.

2. Certified that I have personally verified the admission records maintained in the school and found correct.

Signature
Team Incharge

Signature AEO/Zonal/
Distt. Secretary
With seal

Signature Head of School
with seal

Paste here attested Photo
with Principal Stamp
and Signature

ENTRY FORM

BLOCK/DISTRICT /STATE SCHOOL GAMES 2014-15

NAME OF THE SCHOOLBLOCK DISTRICT

NAME OF THE GAME..... AGE GROUP..... BOYS/GIRLS DATES FROM.....TO..... Venue

Sr. No.	Name	Father's Name	Mother's Name	Name of the School	Date of Birth	Class	Admn No.	Date of Admn. In School	Date of Admn. In Class	Year of passing 5 th , 8 th or 10 th	Event	Signature
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												

Signature
Team Incharge
With seal

Signature
Zonal/ District Secretary

Signature AEO
with seal

Signature Head of School
with seal